

Series : RQ3SP



SET~1

प्रश्न-पत्र कोड  
Q.P. Code **67/3/1**

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.



## लेखाशास्त्र ACCOUNTANCY



निर्धारित समय : 3 घण्टे  
Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80  
Maximum Marks : 80

नोट :

- (I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 39 हैं।
- (II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- (III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 34 प्रश्न हैं।
- (IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- (V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

NOTE :

- (I) Please check that this question paper contains 39 printed pages.
- (II) Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- (III) Please check that this question paper contains 34 questions.
- (IV) Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
- (V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



## सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में **34** प्रश्न हैं। **सभी प्रश्न अनिवार्य** हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र **दो** भागों में विभाजित है — **भाग क** तथा **भाग ख**।
- (iii) **भाग क** सभी परीक्षार्थियों के लिए **अनिवार्य** है।
- (iv) **भाग ख** के दो विकल्प हैं। परीक्षार्थियों को केवल **एक** ही विकल्प के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।

**विकल्प I : वित्तीय विवरणों का विश्लेषण**

**विकल्प II : अभिकलित्र लेखांकन**

- (v) प्रश्न संख्या **1** से **16** (भाग क) तथा प्रश्न संख्या **27** से **30** (भाग ख) बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **1** अंक का है।
- (vi) प्रश्न संख्या **17** से **20** (भाग क) तथा प्रश्न संख्या **31** और **32** (भाग ख) लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **3** अंकों का है।
- (vii) प्रश्न संख्या **21** और **22** (भाग क) तथा प्रश्न संख्या **33** (भाग ख) दीर्घ-उत्तरीय प्रकार-I के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **4** अंकों का है।
- (viii) प्रश्न संख्या **23** से **26** (भाग क) तथा प्रश्न संख्या **34** (भाग ख) दीर्घ-उत्तरीय प्रकार-II के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **6** अंकों का है।
- (ix) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, प्रत्येक भाग के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।

## भाग क

(साझेदारी फर्मों तथा कम्पनियों के लिए लेखांकन)

1. धरम तथा करन एक फर्म के साझेदार थे तथा 7 : 3 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 1 अप्रैल, 2025 को, उन्होंने विनोद को एक नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश दिया। धरम ने विनोद के पक्ष में अपने भाग के  $\frac{1}{3}$  भाग का तथा करन ने अपने भाग के  $\frac{1}{4}$  भाग का त्याग विनोद के पक्ष में किया। नया लाभ विभाजन अनुपात होगा :

- (A) 7 : 3 : 1
- (B) 56 : 27 : 10
- (C) 27 : 56 : 10
- (D) 56 : 27 : 37

1



### **General Instructions :**

*Read the following instructions carefully and follow them :*

- (i) *This question paper contains **34** questions. **All** questions are **compulsory**.*
- (ii) *This question paper is divided into **two** parts — **Part A** and **Part B**.*
- (iii) ***Part A** is **compulsory** for all candidates.*
- (iv) ***Part B** has two options. Candidates have to attempt only **one** of the given options.*

**Option I : Analysis of Financial Statements**

**Option II : Computerised Accounting**

- (v) *Questions number **1** to **16** (Part A) and Questions number **27** to **30** (Part B) are Multiple Choice Questions. Each question carries **1** mark.*
- (vi) *Questions number **17** to **20** (Part A) and Questions number **31** and **32** (Part B) are Short Answer type questions. Each question carries **3** marks.*
- (vii) *Questions number **21** and **22** (Part A) and Question number **33** (Part B) are Long Answer type-I questions. Each question carries **4** marks.*
- (viii) *Questions number **23** to **26** (Part A) and Question number **34** (Part B) are Long Answer type-II questions. Each question carries **6** marks.*
- (ix) *There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in few questions in each of the parts.*

## **PART A**

### **(Accounting for Partnership Firms and Companies)**

1. Dharam and Karan were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7 : 3. On 1<sup>st</sup> April, 2025, they admitted Vinod as a new partner in the firm. Dharam surrendered  $\frac{1}{3}$ <sup>rd</sup> of his share in favour of Vinod and Karan surrendered  $\frac{1}{4}$ <sup>th</sup> of his share in favour of Vinod. The new profit sharing ratio will be :

- (A) 7 : 3 : 1
- (B) 56 : 27 : 10
- (C) 27 : 56 : 10
- (D) 56 : 27 : 37

1



2. अभिकथन (A) : साझेदारी फर्म में एक नए साझेदार के प्रवेश की स्थिति में, सभी साझेदारों के बीच नए लाभ विभाजन अनुपात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है।  
कारण (R) : एक नए साझेदार के प्रवेश पर, पुराने साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात, आने वाले साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में उसके सम्बन्धित योगदान को ध्यान में रखते हुए बदल जाएगा।

निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

1

- (A) अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।  
(B) अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, परंतु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।  
(C) अभिकथन (A) सही है, परंतु कारण (R) गलत है।  
(D) अभिकथन (A) गलत है, परंतु कारण (R) सही है।

3. (क) अतुल, बजाज तथा मदन एक फर्म के साझेदार थे तथा 1 : 2 : 5 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। साझेदारी संलेख में प्रावधान था कि साझेदार के आहरण पर 18% वार्षिक दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, बजाज ने प्रत्येक तिमाही के अन्त में ₹ 7,000 का आहरण किया। बजाज के आहरण पर ब्याज होगा :

1

- (A) ₹ 1,890 (B) ₹ 3,150  
(C) ₹ 420 (D) ₹ 5,040

अथवा

- (ख) दामोदर, राव तथा श्रीधरन एक फर्म के साझेदार थे तथा 3 : 1 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। उनकी स्थायी पूँजी क्रमशः ₹ 4,00,000; ₹ 3,00,000 तथा ₹ 2,00,000 थीं। पूँजी पर 6% वार्षिक दर से ब्याज देय था। राव की पूँजी पर ब्याज देने की रोज़नामचा प्रविष्टि होगी :

1

	विवरण	नाम राशि (₹)	जमा राशि (₹)
(A)	लाभ-हानि विनियोजन खाता राव का पूँजी खाता	18,000	18,000
(B)	लाभ-हानि विनियोजन खाता राव का चालू खाता	18,000	18,000
(C)	पूँजी खाते पर ब्याज राव का चालू खाता	18,000	18,000
(D)	पूँजी खाते पर ब्याज राव का पूँजी खाता	18,000	18,000



2. *Assertion (A)* : In case of admission of a new partner in the partnership firm, there is a need to ascertain the new profit sharing ratio among all the partners.

*Reason (R)* : On admission of a new partner, the profit sharing ratio among the old partners will change, keeping in view their respective contribution to the profit sharing ratio of the incoming partner.

Choose the correct option from the following :

1

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are correct and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).  
 (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are correct, but Reason (R) is **not** the correct explanation of Assertion (A).  
 (C) Assertion (A) is correct, but Reason (R) is incorrect.  
 (D) Assertion (A) is incorrect, but Reason (R) is correct.

3. (a) Atul, Bajaj and Madan were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 1 : 2 : 5. The partnership deed provides that interest on a partner's drawings shall be charged @ 18% per annum. During the year ended 31<sup>st</sup> March, 2025, Bajaj withdrew ₹ 7,000 at the end of each quarter. Interest on Bajaj's drawings will be :

1

- (A) ₹ 1,890 (B) ₹ 3,150  
 (C) ₹ 420 (D) ₹ 5,040

**OR**

- (b) Damodar, Rao and Shridharan were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 1 : 1. Their fixed capitals were ₹ 4,00,000; ₹ 3,00,000 and ₹ 2,00,000 respectively. Interest on capital is allowed at the rate of 6% per annum. Journal entry for allowing interest on Rao's capital will be :

1

	Particulars	Debit Amount (₹)	Credit Amount (₹)
(A)	Profit & Loss Appropriation A/c Dr. To Rao's Capital A/c	18,000	18,000
(B)	Profit & Loss Appropriation A/c Dr. To Rao's Current A/c	18,000	18,000
(C)	Interest on Capital A/c Dr. To Rao's Current A/c	18,000	18,000
(D)	Interest on Capital A/c Dr. To Rao's Capital A/c	18,000	18,000



4. (क) पैरामाउंट लिमिटेड ने 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए ₹ 100 प्रत्येक के 2,000 समता अंश, जिन पर ₹ 80 याचित थे, ₹ 20 प्रति अंश की प्रथम याचना का भुगतान न करने पर हरण कर लिया। इन अंशों के हरण पर, समता अंश पूँजी खाता \_\_\_\_\_ होगा \_\_\_\_\_ से। 1
- (A) डेबिट, ₹ 1,60,000
- (B) क्रेडिट, ₹ 1,60,000
- (C) डेबिट, ₹ 2,00,000
- (D) क्रेडिट, ₹ 2,00,000

अथवा

- (ख) रुदाली लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 2,00,000 समता अंशों को ₹ 2 प्रति अंश के प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन पर ₹ 5 प्रति अंश (प्रीमियम सहित) देय था। 2,60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 5,000 अंशों के एक आवेदक ने अपनी संपूर्ण अंश राशि का भुगतान आवेदन के साथ कर दिया। आवेदन पर प्राप्त राशि थी : 1
- (A) ₹ 10,00,000
- (B) ₹ 12,00,000
- (C) ₹ 12,35,000
- (D) ₹ 13,35,000

5. चमन, रमन तथा सुमन एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 : 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 1 अप्रैल, 2025 से, उन्होंने भविष्य में लाभों को 2 : 3 : 5 के अनुपात में बाँटने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के लिए, यह सहमति हुई कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹ 1,00,000 किया जाएगा। ख्याति खाता खोले बिना ख्याति का लेखांकन होगा : 1
- (A) चमन के पूँजी खाते को ₹ 30,000 से डेबिट तथा सुमन के पूँजी खाते को ₹ 30,000 से क्रेडिट
- (B) सुमन के पूँजी खाते को ₹ 30,000 से डेबिट तथा चमन के पूँजी खाते को ₹ 30,000 से क्रेडिट
- (C) चमन तथा सुमन प्रत्येक के पूँजी खाते को ₹ 15,000 से डेबिट तथा रमन के पूँजी खाते को ₹ 30,000 से क्रेडिट
- (D) रमन के पूँजी खाते को ₹ 30,000 से डेबिट तथा चमन एवं सुमन प्रत्येक के पूँजी खाते को ₹ 15,000 से क्रेडिट



4. (a) Paramount Ltd. forfeited 2,000 equity shares of ₹ 100 each, ₹ 80 called up, issued at a premium of 10%, for non-payment of first call of ₹ 20 per share. On forfeiture of these shares, Equity Share Capital Account will be \_\_\_\_\_ by \_\_\_\_\_. 1

- (A) debited, ₹ 1,60,000
- (B) credited, ₹ 1,60,000
- (C) debited, ₹ 2,00,000
- (D) credited, ₹ 2,00,000

**OR**

- (b) Rudali Ltd. invited applications for issuing 2,00,000 equity shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 2 per share. ₹ 5 per share (including premium) was payable on application. Applications for 2,60,000 shares were received. An applicant for 5,000 shares paid his entire share money along with application. The amount received on application was : 1

- (A) ₹ 10,00,000
- (B) ₹ 12,00,000
- (C) ₹ 12,35,000
- (D) ₹ 13,35,000

5. Chaman, Raman and Suman were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5 : 3 : 2. With effect from 1<sup>st</sup> April, 2025, they decided to share the future profits in the ratio of 2 : 3 : 5. For this purpose, it was agreed that the goodwill of the firm be valued at ₹ 1,00,000. The treatment of goodwill without opening goodwill account will be : 1

- (A) Debit Chaman's Capital A/c by ₹ 30,000 and Credit Suman's Capital A/c by ₹ 30,000
- (B) Debit Suman's Capital A/c by ₹ 30,000 and Credit Chaman's Capital A/c by ₹ 30,000
- (C) Debit Chaman's Capital A/c and Suman's Capital A/c by ₹ 15,000 each and credit Raman's Capital A/c by ₹ 30,000
- (D) Debit Raman's Capital A/c by ₹ 30,000 and Credit Chaman's Capital A/c and Suman's Capital A/c by ₹ 15,000 each



6. (क) 1 अप्रैल, 2024 को, मोबी लिमिटेड ने ₹ 1,000 प्रत्येक के 3,000, 9% ऋणपत्रों को 5% प्रीमियम पर निर्गमित किया। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ऋणपत्रों पर देय कुल ब्याज की राशि होगी :

1

- (A) ₹ 2,70,000  
(B) ₹ 1,50,000  
(C) ₹ 27,000  
(D) ₹ 15,000

अथवा

- (ख) कम्पनी अपनी अयाचित पूँजी का एक भाग सुरक्षित रख सकती है जो केवल कम्पनी के समापन की दशा में ही माँगा जा सकता है। यह अयाचित भाग कहलाता है :

1

- (A) अयाचित पूँजी  
(B) प्रदत्त पूँजी  
(C) याचित पूँजी  
(D) आरक्षित पूँजी

7. (क) अनूप, भारती तथा मनोज एक फर्म के साझेदार थे तथा 11 : 8 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 1 अप्रैल, 2025 से, उन्होंने भविष्य में लाभों को 2 : 2 : 1 के अनुपात में बाँटने का निर्णय किया। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण प्रत्येक साझेदार का अभिलाभ अथवा त्याग होगा :

1

- (A) अनूप का अभिलाभ  $\frac{3}{20}$ , मनोज का त्याग  $\frac{3}{20}$   
(B) अनूप का त्याग  $\frac{3}{20}$ , मनोज का अभिलाभ  $\frac{3}{20}$   
(C) अनूप का अभिलाभ  $\frac{3}{20}$ , मनोज का अभिलाभ  $\frac{3}{20}$   
(D) अनूप का त्याग  $\frac{3}{20}$ , मनोज का त्याग  $\frac{3}{20}$

अथवा

- (ख) अरुण, वरुण तथा तरुण एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 : 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 31 मार्च, 2025 को, अरुण की मृत्यु हो गई। वरुण तथा तरुण ने भविष्य में लाभों को बराबर-बराबर बाँटने का निर्णय किया। वरुण तथा तरुण का अभिलाभ अनुपात होगा :

1

- (A) 1 : 1 (B) 3 : 2  
(C) 2 : 3 (D) 5 : 2





6. (a) On 1<sup>st</sup> April, 2024, Mobi Ltd. issued 3,000, 9% Debentures of ₹ 1,000 each at a premium of 5%. The total amount of interest due on debentures for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2025 will be : 1
- (A) ₹ 2,70,000  
(B) ₹ 1,50,000  
(C) ₹ 27,000  
(D) ₹ 15,000

**OR**

- (b) A company may reserve a portion of its uncalled capital to be called only in the event of winding up of the company. Such uncalled amount is called : 1
- (A) Uncalled capital  
(B) Paid-up capital  
(C) Called-up capital  
(D) Reserve capital

7. (a) Anup, Bharti and Manoj were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 11 : 8 : 1. From 1<sup>st</sup> April, 2025, they decided to share the future profits in the ratio of 2 : 2 : 1. The gain or sacrifice of each partner due to change in profit sharing ratio will be : 1
- (A) Anup's gain  $\frac{3}{20}$ , Manoj's sacrifice  $\frac{3}{20}$   
(B) Anup's sacrifice  $\frac{3}{20}$ , Manoj's gain  $\frac{3}{20}$   
(C) Anup's gain  $\frac{3}{20}$ , Manoj's gain  $\frac{3}{20}$   
(D) Anup's sacrifice  $\frac{3}{20}$ , Manoj's sacrifice  $\frac{3}{20}$

**OR**

- (b) Arun, Varun and Tarun were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5 : 3 : 2. On 31<sup>st</sup> March, 2025, Arun died. Varun and Tarun decided to share future profits equally. The gaining ratio of Varun and Tarun will be : 1
- (A) 1 : 1 (B) 3 : 2  
(C) 2 : 3 (D) 5 : 2



8. दिव्या तथा भोली एक फर्म की साझेदार थीं तथा 3 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटती थीं। 1 अप्रैल, 2024 को, उनकी स्थायी पूँजी क्रमशः ₹ 8,00,000 तथा ₹ 6,00,000 थीं। 30 सितम्बर, 2024 को, भोली ने ₹ 50,000 की अतिरिक्त पूँजी लगाई। साझेदारी संलेख में पूँजी पर 12% वार्षिक दर से ब्याज देने का प्रावधान था। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भोली की पूँजी पर ब्याज की राशि थी :

1

- (A) ₹ 78,000
- (B) ₹ 75,000
- (C) ₹ 72,000
- (D) ₹ 3,000

9. (क) वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है, समग्र रूप से कहलाते हैं :

1

- (A) फर्म
- (B) साझेदारी
- (C) साझेदार
- (D) साझेदारों की फर्म

#### अथवा

- (ख) साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार अधिकारी हैं :

1

- (A) पूँजी पर ब्याज के
- (B) उनके पूँजी अनुपात में लाभों/हानियों में भाग के
- (C) उनके द्वारा फर्म को दिए गए ऋण/अग्रिम पर 6% की दर से ब्याज के
- (D) फर्म के कार्य के लिए वेतन के

10. जब साझेदारों की पूँजी परिवर्तनशील होती है, तब आहरण, आहरण पर ब्याज, पूँजी पर ब्याज, साझेदारों के वेतन, आदि के समायोजन \_\_\_\_\_ दर्शाए जाते हैं।

1

- (A) साझेदारों के चालू खाते में
- (B) साझेदारों के पूँजी खाते में
- (C) आहरण खाते में
- (D) लाभ-हानि विनियोजन खाते में



8. Divya and Bholi were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 1. On 1<sup>st</sup> April, 2024, their fixed capitals were ₹ 8,00,000 and ₹ 6,00,000 respectively. On 30<sup>th</sup> September, 2024, Bholi introduced ₹ 50,000 as additional capital. Partnership deed provided that interest on capital will be allowed @ 12% p.a. Interest on Bholi's capital for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2025 was :

1

- (A) ₹ 78,000
- (B) ₹ 75,000
- (C) ₹ 72,000
- (D) ₹ 3,000

9. (a) Persons who have entered into partnership with one another are collectively called :

1

- (A) Firm
- (B) Partnership
- (C) Partners
- (D) Partners' firm

**OR**

- (b) In the absence of partnership deed, partners are entitled to :

1

- (A) Interest on Capital
- (B) Share of profits/losses in the ratio of their capitals
- (C) Interest @ 6% p.a. on loans/advances by them to the firm
- (D) Remuneration for the firm's work

10. When capitals of the partners are fluctuating, then the adjustments for drawings, interest on drawings, interest on capital, partners' salary, etc. are shown in the \_\_\_\_\_.

1

- (A) Current Account of partners
- (B) Capital Account of partners
- (C) Drawings Account
- (D) Profit and Loss Appropriation Account



11. निगम लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 40,000, 11% ऋणपत्रों का निर्गमन एक निश्चित बट्टे की दर पर किया। ऋणपत्रों का शोधन 20% प्रीमियम पर किया जाना था। इन ऋणपत्रों के निर्गमन से पूर्व प्रतिभूति प्रीमियम का विद्यमान शेष ₹ 13,00,000 था।

‘ऋणपत्रों के निर्गमन पर हानि’ को अपलिखित करने के पश्चात्, प्रतिभूति प्रीमियम का शेष ₹ 3,00,000 था।

उपर्युक्त ऋणपत्रों का निर्गमन किया गया था :

1

- (A) 20% बट्टे पर
- (B) 15% बट्टे पर
- (C) 10% बट्टे पर
- (D) 5% बट्टे पर

12. दीप लिमिटेड ने ₹ 500 प्रत्येक के 6,000, 9% ऋणपत्रों का निर्गमन ₹ 490 प्रति ऋणपत्र पर किया। 9% ऋणपत्र खाते को क्रेडिट किया जाएगा :

1

- (A) ₹ 2,70,000 से
- (B) ₹ 6,00,000 से
- (C) ₹ 29,40,000 से
- (D) ₹ 30,00,000 से

13. मोगरा लिमिटेड ने ₹ 14,40,000 की परिसम्पत्तियों को डीके लिमिटेड से क्रय किया। क्रय प्रतिफल के पूर्ण निपटान में 4% छूट पर इसने ₹ 100 प्रत्येक के 9% ऋणपत्रों का निर्गमन किया। डीके लिमिटेड को निर्गमित किए गए ऋणपत्रों की संख्या थी :

1

- |              |            |
|--------------|------------|
| (A) 14,400   | (B) 15,000 |
| (C) 3,60,000 | (D) 1,500  |

14. 31 मार्च, 2025 को, हरी तथा ओम के बीच साझेदारी का विघटन हो गया। हरी को विघटन कार्य की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया जिसके लिए उसे ₹ 9,700 कमीशन दिया जाना था। वह विघटन व्ययों को वहन करने के लिए सहमत हो गया। विघटन के वास्तविक व्यय ₹ 8,900 थे जिनका भुगतान हरी के मित्र भानु ने उसकी तरफ से किया। वसूली खाते में डेबिट की गई राशि होगी :

1

- |              |             |
|--------------|-------------|
| (A) ₹ 9,700  | (B) ₹ 8,900 |
| (C) ₹ 10,000 | (D) शून्य   |



11. Nigam Ltd. issued 40,000, 11% Debentures of ₹ 100 each at a certain rate of discount. The debentures were to be redeemed at 20% premium. Existing balance of Securities Premium before issue of these debentures was ₹ 13,00,000.

After writing off 'Loss on issue of debentures', the balance in Securities Premium was ₹ 3,00,000.

The above debentures were issued at a discount of :

1

- (A) 20%
- (B) 15%
- (C) 10%
- (D) 5%

12. Deep Ltd. issued 6,000, 9% Debentures of ₹ 500 each at ₹ 490 per debenture. 9% Debentures Account will be credited by :

1

- (A) ₹ 2,70,000
- (B) ₹ 6,00,000
- (C) ₹ 29,40,000
- (D) ₹ 30,00,000

13. Mogra Ltd. purchased assets of ₹ 14,40,000 from DK Ltd. It issued 9% Debentures of ₹ 100 each at a discount of 4% in full satisfaction of the purchase consideration. The number of debentures issued to DK Ltd. were :

1

- |              |            |
|--------------|------------|
| (A) 14,400   | (B) 15,000 |
| (C) 3,60,000 | (D) 1,500  |

14. On 31<sup>st</sup> March, 2025, the partnership between Hari and Om was dissolved. Hari was appointed to look after dissolution work for which he was allowed a commission of ₹ 9,700. He agreed to bear the dissolution expenses. The actual expenses of dissolution amounted to ₹ 8,900 which were paid by Hari's friend, Bhanu on his behalf. The amount debited to Realisation Account will be :

1

- |              |             |
|--------------|-------------|
| (A) ₹ 9,700  | (B) ₹ 8,900 |
| (C) ₹ 10,000 | (D) Nil     |



**15.** अतुल और निशा एक फर्म के साझेदार थे तथा 4 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। उनकी पूँजी क्रमशः ₹ 1,20,000 तथा ₹ 90,000 थीं। 1 अप्रैल, 2025 को, भविष्य के लाभों में  $\frac{1}{4}$  भाग के लिए उन्होंने मोना को एक नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश दिया। मोना अपनी पूँजी के रूप में ₹ 1,00,000 लाई। फर्म की ख्याति का मूल्य था :

1

- (A) ₹ 22,500 (B) ₹ 4,00,000  
(C) ₹ 90,000 (D) ₹ 1,00,000

**16.** यशोदा तथा देवी एक फर्म की साझेदार थीं तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटती थीं। 31 मार्च, 2025 को, उनका स्थिति विवरण ₹ 20,00,000 का भूमि एवं भवन तथा ₹ 6,00,000 का फर्नीचर दर्शा रहा था। इस तिथि को भविष्य के लाभों में  $\frac{1}{4}$  भाग के लिए उन्होंने पूनम को एक नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश दिया। पूनम के प्रवेश पर, यह पाया गया कि भूमि एवं भवन का मूल्यांकन 2% कम है। पूनम के प्रवेश पर, पुनर्मूल्यांकन खाते को :

1

- (A) ₹ 5,00,000 से डेबिट किया जाएगा  
(B) ₹ 25,00,000 से डेबिट किया जाएगा  
(C) ₹ 25,00,000 से क्रेडिट किया जाएगा  
(D) ₹ 5,00,000 से क्रेडिट किया जाएगा

**17.** तारा, मीरा तथा नीरा एक फर्म की साझेदार थीं तथा लाभ-हानि बराबर-बराबर बाँटती थीं। 1 अप्रैल, 2025 को उनकी पूँजी क्रमशः ₹ 4,00,000; ₹ 3,00,000 तथा ₹ 2,00,000 थीं। फर्म अपनी पुस्तकें प्रति वर्ष 31 मार्च को बंद करती है। 30 जून, 2025 को तारा की मृत्यु हो गई। साझेदारी संलेख में प्रावधान है कि एक साझेदार की मृत्यु पर उसके कानूनी प्रतिनिधियों को निम्नलिखित का अधिकार होगा :

- (i) पूँजी पर 6% वार्षिक दर से ब्याज  
(ii) उसकी मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभों में उसका भाग

30 जून, 2025 तक तारा ने अपने उपचार के लिए ₹ 8,000 का आहरण किया और 12% वार्षिक दर से आहरण पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा। फर्म के लाभों में उसके भाग की गणना पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर की जाएगी। पिछले वर्ष का लाभ ₹ 1,80,000 था।

तारा की मृत्यु पर उसके कानूनी प्रतिनिधियों को प्रस्तुत करने के लिए उसका पूँजी खाता तैयार कीजिए।

3



15. Atul and Nisha were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 1. Their capitals were ₹ 1,20,000 and ₹ 90,000 respectively. On 1<sup>st</sup> April, 2025, they admitted Mona as a new partner in the firm for  $\frac{1}{4}$ <sup>th</sup> share in the future profits. Mona brought ₹ 1,00,000 as her capital. The value of goodwill of the firm was :

- (A) ₹ 22,500 (B) ₹ 4,00,000  
(C) ₹ 90,000 (D) ₹ 1,00,000

1

16. Yashoda and Devi were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2. On 31<sup>st</sup> March, 2025, their balance sheet showed land and building at ₹ 20,00,000 and furniture at ₹ 6,00,000. On that date they admitted Poonam as a new partner for  $\frac{1}{4}$ <sup>th</sup> share in the future profits of the firm. On Poonam's admission, it was found that land and building is undervalued by 20%. On Poonam's admission, Revaluation Account will be :

- (A) debited by ₹ 5,00,000  
(B) debited by ₹ 25,00,000  
(C) credited by ₹ 25,00,000  
(D) credited by ₹ 5,00,000

1

17. Tara, Meera and Neera were partners in a firm sharing profits and losses equally. Their capitals on 1<sup>st</sup> April, 2025 were ₹ 4,00,000; ₹ 3,00,000 and ₹ 2,00,000 respectively. The firm closes its books on 31<sup>st</sup> March every year. Tara died on 30<sup>th</sup> June, 2025. The partnership deed provides that in the event of death of a partner, her legal representatives will be entitled to the following :

- (i) Interest on capital @ 6% p.a.  
(ii) Her share in the profits of the firm till the date of her death.

Tara had withdrawn ₹ 8,000 for her treatment till 30<sup>th</sup> June, 2025 and interest on drawings @ 12% p.a. is to be charged. Her share in the profits of the firm was to be calculated on the basis of last year's profit. Last year's profit amounted to ₹ 1,80,000.

Prepare Tara's Capital Account to be presented to her legal representatives on her death.

3



18. (क) लक्ष्मी, रानी तथा प्रिया एक फर्म की साझेदार थीं तथा 5 : 7 : 8 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटती थीं। उनकी स्थायी पूँजी क्रमशः ₹ 8,00,000; ₹ 7,00,000 तथा ₹ 5,00,000 थीं। साझेदारी संलेख में पूँजी पर 9% वार्षिक दर से ब्याज का प्रावधान था। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पूँजी पर 12% वार्षिक दर से ब्याज लगाया गया।

अपने कार्य को स्पष्टता से दर्शाते हुए, त्रुटि के समाधान हेतु एक समायोजन प्रविष्टि कीजिए।

3

### अथवा

- (ख) सुकेश तथा सुरभी एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 : 3 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 1 अप्रैल, 2024 को, उन्होंने फर्म के लाभों में  $\frac{1}{5}$  भाग के लिए सुमन को, एक नए साझेदार के रूप में न्यूनतम ₹ 1,20,000 के लाभ की गारंटी के साथ, फर्म में प्रवेश दिया। इस गारंटी के कारण हुई किसी भी कमी को सुकेश वहन करेगा। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म का शुद्ध लाभ ₹ 5,50,000 था।

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म का लाभ-हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए।

3

19. (क) ओएसिस लिमिटेड ने ₹ 15,30,000 के क्रय प्रतिफल के बदले नितारा लिमिटेड से ₹ 12,00,000 मूल्य का भवन, ₹ 1,90,000 मूल्य की मशीनरी तथा ₹ 3,00,000 मूल्य का फर्नीचर क्रय किया तथा इसकी ₹ 90,000 की देयताओं को लिया। ओएसिस लिमिटेड ने क्रय प्रतिफल का भुगतान ₹ 100 प्रत्येक के 11% ऋणपत्रों को 10% बट्टे पर निर्गमित करके किया।

उपर्युक्त लेनदेनों के लिए ओएसिस लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

3

### अथवा

- (ख) 1 अप्रैल, 2025 को, भारत हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ₹ 15,00,000 के क्रय प्रतिफल के बदले मैक लिमिटेड के चालू व्यवसाय का क्रय किया जिसमें ₹ 20,00,000 पुस्तक मूल्य की विविध परिसम्पत्तियाँ तथा ₹ 8,00,000 की विविध देयताएँ सम्मिलित थीं। क्रय प्रतिफल का भुगतान ₹ 100 प्रत्येक के 8,000, 9% ऋणपत्रों का निर्गमन 25% प्रीमियम पर करके तथा शेष को मैक लिमिटेड के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करके किया।

भारत हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पुस्तकों में उपर्युक्त लेनदेनों के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

3





18. (a) Laxmi, Rani and Priya were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5 : 7 : 8. Their fixed capitals were ₹ 8,00,000; ₹ 7,00,000 and ₹ 5,00,000 respectively. The partnership deed provided interest on capital @ 9% per annum. For the year ending 31<sup>st</sup> March, 2025, interest on capital was provided @ 12% per annum.

Showing your workings clearly, pass a single adjustment entry to rectify the error.

3

**OR**

- (b) Sukesh and Surbhi were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5 : 3. On 1<sup>st</sup> April, 2024, they admitted Suman, as a new partner for  $\frac{1}{5}$ <sup>th</sup> share in the profits of the firm with a minimum guaranteed profit of ₹ 1,20,000. Any deficiency arising on that account will be borne by Sukesh. The net profit of the firm for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2025 was ₹ 5,50,000.

Prepare Profit and Loss Appropriation Account of the firm for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2025.

3

19. (a) Oasis Ltd. purchased building worth ₹ 12,00,000, machinery worth ₹ 1,90,000 and furniture worth ₹ 3,00,000 from Nitara Ltd. and took over its liabilities of ₹ 90,000 for a purchase consideration of ₹ 15,30,000. Oasis Ltd. paid the purchase consideration by issuing 11% Debentures of ₹ 100 each at a discount of 10%.

Pass necessary journal entries in the books of Oasis Ltd. for the above transactions.

3

**OR**

- (b) On 1<sup>st</sup> April, 2025, Bharat Heavy Industries Ltd. purchased the running business of Mac Ltd. consisting of sundry assets of the book value of ₹ 20,00,000 and sundry liabilities of ₹ 8,00,000 for a purchase consideration of ₹ 15,00,000. The purchase consideration was paid by issuing 8,000, 9% Debentures of ₹ 100 each at a premium of 25% and the balance was paid by a bank draft in favour of Mac Ltd.

Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Bharat Heavy Industries Ltd.

3



20. ध्रुव तथा सीमा एक फर्म के साझेदार थे तथा 2 : 3 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। उनकी पूँजी क्रमशः ₹ 18,00,000 तथा ₹ 12,00,000 थीं। प्रत्याय की सामान्य दर 15% थी।

पिछले चार वर्षों के लाभ थे :

	(₹)
2021 – 22	7,75,000
2022 – 23	5,00,000
2023 – 24	(75,000)
2024 – 25	7,00,000

वर्ष 2024 – 25 के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन ₹ 1,00,000 से कम किया गया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले चार वर्षों के औसत अधिलाभों के तीन वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाएगा।

फर्म की ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए।

3

21. निम्नलिखित लेनदेनों के लिए ऋणपत्रों के निर्गमन पर आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए :

- एबी लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 30,000, 10% ऋणपत्रों का निर्गमन 5% प्रीमियम पर किया, जिनका शोधन 10% प्रीमियम पर किया जाएगा।
- सीडी लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 40,000, 8% ऋणपत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया, जिनका शोधन 10% प्रीमियम पर किया जाएगा।

4

22. रमन, दमन तथा विक्रम एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 : 4 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 31 मार्च, 2025 को उनकी पूँजी क्रमशः ₹ 6,00,000; ₹ 3,00,000 तथा ₹ 2,00,000 थीं। 1 अप्रैल, 2025 से, उन्होंने भविष्य में लाभों को बराबर-बराबर बाँटने का निर्णय लिया। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण, यह सहमति हुई कि :

- फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹ 3,00,000 किया जाएगा।
- परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 12,000 की हानि हुई।
- पुनर्गठित फर्म की कुल पूँजी ₹ 12,00,000 होगी तथा यह साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात में होगी। इस उद्देश्य के लिए, जैसी भी स्थिति होगी, साझेदार आवश्यकतानुसार नगद लाएँगे अथवा उन्हें नगद भुगतान कर दिया जाएगा।

फर्म के पुनर्गठन पर साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कीजिए।

4



20. Dhruv and Seema were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 : 3. Their capitals were ₹ 18,00,000 and ₹ 12,00,000 respectively. The normal rate of return was 15%.

The profits of the last four years were :

	(₹)
2021 – 22	7,75,000
2022 – 23	5,00,000
2023 – 24	(75,000)
2024 – 25	7,00,000

The closing stock for the year 2024 – 25 was undervalued by ₹ 1,00,000. Goodwill of the firm is to be valued at three years' purchase of last four years' average super-profits.

Calculate the value of goodwill of the firm.

3

21. Pass necessary journal entries for issue of debentures for the following transactions :

- AB Ltd. issued 30,000, 10% Debentures of ₹ 100 each at a premium of 5%, redeemable at a premium of 10%.
- CD Ltd. issued 40,000, 8% Debentures of ₹ 100 each at par, redeemable at a premium of 10%.

4

22. Raman, Daman and Vikram were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5 : 4 : 1. On 31<sup>st</sup> March, 2025, their capitals were ₹ 6,00,000; ₹ 3,00,000 and ₹ 2,00,000 respectively. With effect from 1<sup>st</sup> April, 2025, they decided to share the future profits equally. Due to change in profit sharing ratio, it was agreed that :

- Goodwill of the firm will be valued at ₹ 3,00,000.
- Revaluation of assets and liabilities will be carried out. The revaluation of assets and liabilities resulted in a loss of ₹ 12,000.
- Total capital of the reconstituted firm will be ₹ 12,00,000 and will be in the new profit sharing ratio of the partners. For this purpose, necessary cash will be brought in by the partners or paid off to the partners, as the case may be.

Prepare Partners' Capital Accounts on the reconstitution of the firm.

4



- 23. (क)** माधव लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 4,00,000 समता अंशों को ₹ 4 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। राशि का भुगतान निम्न प्रकार से देय था :
- आवेदन तथा आबंटन पर – ₹ 6 प्रति अंश (₹ 2 प्रीमियम सहित)
- प्रथम तथा अंतिम याचना पर – शेष
- 6,00,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 1,00,000 अंशों के आवेदनों को रद्द कर दिया गया तथा आवेदन राशि वापस कर दी गई। शेष आवेदकों को आनुपातिक आधार पर अंशों का आबंटन किया गया। आवेदन एवं आबंटन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का समायोजन प्रथम एवं अंतिम याचना में कर लिया गया। एक अंशधारक, जिसने 500 अंशों के लिए आवेदन किया था, प्रथम एवं अंतिम याचना राशि का भुगतान करने में असफल रहा। उसके अंशों का हरण कर लिया गया।
- उपर्युक्त लेनदेनों के लिए माधव लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

6

### अथवा

- (ख) (i) एनएन लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 800 समता अंशों का हरण, ₹ 20 प्रति अंश की प्रथम याचना का भुगतान न करने पर कर लिया। ₹ 30 प्रति अंश की दूसरी तथा अंतिम याचना अभी माँगी नहीं गई थी। हरण किए गए अंशों में से, 600 अंशों को ₹ 54,000 पूर्ण प्रदत्त पुनःनिर्गमित कर दिया गया।
- एनएन लिमिटेड की पुस्तकों में उपर्युक्त लेनदेनों के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।
- (ii) केजी लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 7,000 समता अंशों को, जिनका निर्गमन ₹ 20 प्रति अंश प्रीमियम पर किया था, ₹ 20 प्रति अंश की दूसरी तथा अंतिम याचना का भुगतान न करने पर हरण कर लिया। हरण किए गए अंशों को ₹ 80 प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त पुनःनिर्गमित कर दिया गया।
- केजी लिमिटेड की पुस्तकों में उपर्युक्त लेनदेनों के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

3

3



23. (a) Madhav Ltd. invited applications for issuing 4,00,000 equity shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 4 per share. The amount was payable as follows :

On Application and Allotment – ₹ 6 per share (including premium ₹ 2)

On First and Final Call – Balance

Applications for 6,00,000 shares were received. Applications for 1,00,000 shares were rejected and the application money was refunded. Shares were allotted on pro-rata basis to the remaining applicants. Excess money received on application and allotment was adjusted towards sums due on first and final call. A shareholder, who had applied for 500 shares, failed to pay the first and final call. His shares were forfeited.

Pass necessary journal entries in the books of Madhav Ltd. for the above transactions.

6

**OR**

- (b) (i) NN Ltd. forfeited 800 equity shares of ₹ 100 each for non-payment of the first call of ₹ 20 per share. The second and final call of ₹ 30 per share was not yet made. Out of the forfeited shares, 600 shares were re-issued for ₹ 54,000 as fully paid-up.

Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of NN Ltd.

3

- (ii) KG Ltd. forfeited 7,000 equity shares of ₹ 100 each, issued at a premium of ₹ 20 per share, for non-payment of second and final call of ₹ 20 per share. The forfeited shares were re-issued at ₹ 80 per share, fully paid-up.

Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of KG Ltd.

3



**24.** दीक्षा लिमिटेड ₹ 10 प्रत्येक के अंशों में विभाजित ₹ 40,00,000 की अधिकृत पूँजी के साथ पंजीकृत थी। 1 अप्रैल, 2025 को कम्पनी ने जनता को अभिदान के लिए 1,20,000 अंशों को प्रस्तुत किया। 1,10,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदकों को पूर्ण आबंटन कर दिया गया। एक अंशधारी, जो 10,000 अंशों का धारक था, ₹ 2 प्रति अंश की दूसरी और अंतिम याचना देने में असफल रहा।

उपर्युक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) 'अदत्त याचना' राशि होगी : 1
- (A) ₹ 10,000  
(B) ₹ 20,000  
(C) ₹ 80,000  
(D) ₹ 1,00,000
- (ii) दीक्षा लिमिटेड की 'अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त पूँजी' होगी : 1
- (A) ₹ 9,80,000  
(B) ₹ 10,80,000  
(C) ₹ 11,00,000  
(D) ₹ 10,00,000
- (iii) दीक्षा लिमिटेड की 'अभिदत्त लेकिन पूर्ण प्रदत्त नहीं पूँजी' होगी : 1
- (A) ₹ 80,000  
(B) ₹ 20,000  
(C) ₹ 10,000  
(D) शून्य
- (iv) दीक्षा लिमिटेड के स्थिति विवरण में दर्शाई जाने वाली 'अंश पूँजी' की राशि होगी : 1
- (A) ₹ 11,00,000  
(B) ₹ 10,80,000  
(C) ₹ 10,00,000  
(D) ₹ 9,80,000



24. Diksha Ltd. was registered with an authorised capital of ₹ 40,00,000 divided into shares of ₹ 10 each. On 1<sup>st</sup> April, 2025, the company offered to the public for subscription, 1,20,000 shares. Applications for 1,10,000 shares were received and allotment was made in full to all the applicants. A shareholder holding 10,000 shares failed to pay the second and final call of ₹ 2 per share.

Answer the following questions on the basis of the above information :

- (i) The amount of 'calls in arrears' will be : 1
- (A) ₹ 10,000  
(B) ₹ 20,000  
(C) ₹ 80,000  
(D) ₹ 1,00,000
- (ii) The 'subscribed and fully paid-up capital' of Diksha Ltd. will be : 1
- (A) ₹ 9,80,000  
(B) ₹ 10,80,000  
(C) ₹ 11,00,000  
(D) ₹ 10,00,000
- (iii) 'Subscribed but not fully paid-up capital' of Diksha Ltd. will be : 1
- (A) ₹ 80,000  
(B) ₹ 20,000  
(C) ₹ 10,000  
(D) Nil
- (iv) The amount of 'share capital' to be shown in the balance sheet of Diksha Ltd. will be : 1
- (A) ₹ 11,00,000  
(B) ₹ 10,80,000  
(C) ₹ 10,00,000  
(D) ₹ 9,80,000



(v) यदि सभी अंशों का जिन पर दूसरी एवं अंतिम याचना प्राप्त नहीं हुई, हरण कर लिया जाए, तो 'खातों के नोट्स' में 'अंश हरण खाता' दर्शाया जाएगा :

1

- (A) ₹ 20,000 से
- (B) ₹ 80,000 से
- (C) ₹ 1,00,000 से
- (D) ₹ 1,80,000 से

(vi) न्यूनतम मूल्य जिस पर हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमित किया जा सकता है, वह है :

1

- (A) ₹ 20,000
- (B) ₹ 80,000
- (C) ₹ 1,00,000
- (D) ₹ 1,10,000

**25.** सोफिया तथा ललित एक फर्म के साझेदार थे तथा लाभ-हानि बराबर-बराबर बाँटते थे । 31 मार्च, 2025 को उनकी फर्म का विघटन हो गया । विविध परिसम्पत्तियों (रोकड़ हस्ते तथा बैंक में नगद को छोड़कर) तथा तृतीय पक्ष देयताओं को वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात् निम्नलिखित लेनदेन हुए :

- (i) फर्म के पास ₹ 80,000 पुस्तक मूल्य का स्टॉक था । 50% स्टॉक को सोफिया ने पुस्तक मूल्य से 10% कम पर ले लिया तथा शेष स्टॉक पुस्तक मूल्य के 15% लाभ पर बेचा गया ।
- (ii) एक अलिखित निवेश था, जिसे ₹ 25,000 में बेचा गया ।
- (iii) ₹ 1,20,000 के देनदार थे । उनसे केवल 90% प्राप्त हुआ तथा पिछले वर्ष अपलिखित डूबत ऋणों से ₹ 5,000 की वसूली हुई ।
- (iv) सोफिया ने फर्म को ₹ 52,000 का ऋण दिया था । अपने दावे के पूर्ण निपटान में उसे ₹ 41,000 का भुगतान किया गया ।
- (v) ₹ 60,000 के लेनदारों को 5% बट्टे पर भुगतान किया गया ।
- (vi) ₹ 7,000 के वसूली व्ययों का भुगतान ललित द्वारा किया गया ।

फर्म की पुस्तकों में उपर्युक्त लेनदेनों के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए ।

6





(v) If all the shares on which second and final call was not received, are forfeited, 'Share Forfeiture Account' will appear in the 'Notes to Accounts' at :

1

- (A) ₹ 20,000
- (B) ₹ 80,000
- (C) ₹ 1,00,000
- (D) ₹ 1,80,000

(vi) The minimum price at which the forfeited shares can be reissued is :

1

- (A) ₹ 20,000
- (B) ₹ 80,000
- (C) ₹ 1,00,000
- (D) ₹ 1,10,000

**25.** Sophia and Lalit were partners in a firm sharing profits and losses equally. Their firm was dissolved on 31<sup>st</sup> March, 2025. After transferring sundry assets (other than cash in hand and cash at bank) and the third party liabilities to the Realisation Account, the following transactions took place :

- (i) The firm had stock of the book value of ₹ 80,000. 50% of the stock was taken over by Sophia at 10% less than its book value and the remaining stock was sold at a gain of 15%.
- (ii) There was an unrecorded investment which was sold for ₹ 25,000.
- (iii) There were debtors of ₹ 1,20,000. Debtors realised 90% only and ₹ 5,000 were recovered for bad debts written off last year.
- (iv) Sophia had given a loan to the firm of ₹ 52,000. She was paid ₹ 41,000 in full settlement of her claim.
- (v) Creditors of ₹ 60,000 were paid at a discount of 5%.
- (vi) Expenses of realisation amounting to ₹ 7,000 were paid by Lalit.

Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm.

6



26. (क) आनंद तथा बीर एक फर्म के साझेदार थे तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 31 मार्च, 2025 को, उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था :

**31 मार्च, 2025 को आनंद तथा बीर का स्थिति विवरण**

देयताएँ	राशि (₹)	परिसम्पत्तियाँ	राशि (₹)
लेनदार	45,000	नगद	9,000
कामगार क्षतिपूर्ति कोष	15,000	देनदार	36,000
पूँजी :			
आनंद	90,000	स्टॉक	45,000
बीर	<u>60,000</u>	फर्नीचर	30,000
	1,50,000	संयंत्र तथा मशीनरी	90,000
	<u>2,10,000</u>		<u>2,10,000</u>

1 अप्रैल, 2025 को, उन्होंने फर्म के लाभों में  $\frac{1}{6}$  भाग के लिए विशाल को एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। इस पर सहमति हुई कि :

- विशाल अपनी पूँजी के रूप में ₹ 45,000 तथा ख्याति प्रीमियम के अपने भाग के लिए ₹ 15,000 लाएगा।
- स्टॉक का मूल्य 10% से घटाया जाएगा तथा मशीनरी का मूल्य 10% से बढ़ाया जाएगा।
- फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन ₹ 27,000 किया गया।
- डूबत ऋणों के लिए 5% प्रावधान बनाया जाएगा तथा अदत्त मरम्मत बिल के लिए ₹ 600 का प्रावधान किया जाएगा।
- ₹ 3,000 के अलिखित निवेश थे जिनका लेखा किया जाएगा।
- ₹ 900 का एक लेनदार अपने धन का दावा नहीं करेगा, अतः उसे अपलिखित किया जाएगा।

विशाल के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में उपर्युक्त लेनदेनों के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

**अथवा**



26. (a) Anand and Bir were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2. On 31<sup>st</sup> March, 2025, their Balance Sheet was as follows :

**Balance Sheet of Anand and Bir as on 31<sup>st</sup> March, 2025**

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Creditors	45,000	Cash	9,000
Workmen Compensation Fund	15,000	Debtors	36,000
Capitals :			
Anand                      90,000		Stock	45,000
Bir <u>60,000</u>	1,50,000	Furniture	30,000
		Plant and Machinery	90,000
	<u>2,10,000</u>		<u>2,10,000</u>

On 1<sup>st</sup> April, 2025, they admitted Vishal as a new partner for  $\frac{1}{6}$ <sup>th</sup> share in the profits of the firm. It was agreed that :

- (i) Vishal will bring ₹ 45,000 as his capital and ₹ 15,000 for his share of goodwill premium.
- (ii) Stock was to be reduced by 10% and machinery was to be appreciated by 10%.
- (iii) Furniture was revalued at ₹ 27,000.
- (iv) 5% provision for bad debts was to be created and ₹ 600 were to be provided for outstanding repair bill.
- (v) There were unrecorded investments of ₹ 3,000 which were to be recorded.
- (vi) A creditor of ₹ 900 was not likely to claim his money and hence was to be written off.

Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm on Vishal's admission.

6

**OR**



- (ख) राधा, श्याम तथा मीरा एक फर्म के साझेदार थे तथा लाभ-हानि बराबर-बराबर बाँटते थे।  
31 मार्च, 2025 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था :

**31 मार्च, 2025 को राधा, श्याम तथा मीरा का स्थिति विवरण**

देयताएँ	राशि (₹)	परिसम्पत्तियाँ	राशि (₹)
पूँजी :		एकस्व	1,80,000
राधा	4,00,000	भवन	6,90,000
श्याम	4,00,000	देनदार	2,70,000
मीरा	<u>4,00,000</u>	स्टॉक	3,60,000
सामान्य संचय	3,00,000	बैंक	1,80,000
लेनदार	1,80,000		
	<u>16,80,000</u>		<u>16,80,000</u>

उपर्युक्त तिथि को निम्नलिखित शर्तों पर श्याम फर्म से सेवानिवृत्त हो गया :

- शेष साझेदारों के बीच 3 : 2 के नए लाभ विभाजन अनुपात पर सहमति हुई।
- स्टॉक के मूल्य को ₹ 1,20,000 से कम करना था।
- एकस्व मूल्यहीन माने गए इसलिए अपलिखित किए जाने थे।
- श्याम की सेवानिवृत्ति पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹ 6,00,000 था।
- श्याम को उसकी सेवानिवृत्ति पर ₹ 1,00,000 का भुगतान तुरंत कर दिया गया और शेष उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया गया।

पुनर्मूल्यांकन खाता एवं साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कीजिए।



- (b) Radha, Shyam and Meera were partners in a firm sharing profits and losses equally. Their Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March, 2025 was as follows :

**Balance Sheet of Radha, Shyam and Meera as at 31<sup>st</sup> March, 2025**

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Capitals :		Patents	1,80,000
Radha                      4,00,000		Building	6,90,000
Shyam                      4,00,000		Debtors	2,70,000
Meera <u>4,00,000</u>	12,00,000	Stock	3,60,000
General Reserve	3,00,000	Bank	1,80,000
Creditors	1,80,000		
	<u>16,80,000</u>		<u>16,80,000</u>

Shyam retired from the firm on the above date on the following terms :

- The new profit sharing ratio between the remaining partners was agreed at 3 : 2.
- The value of stock was to be reduced by ₹ 1,20,000.
- Patents were considered as valueless and hence were to be written off.
- Goodwill of the firm was valued at ₹ 6,00,000 on Shyam's retirement.
- Shyam was paid ₹ 1,00,000 immediately on his retirement and the balance was transferred to his loan account.

Prepare Revaluation Account and Partners' Capital Accounts.

6



**भाग ख**  
**विकल्प I**

**(वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)**

- 27.** (क) निम्नलिखित में से कौन-सा एक कम्पनी का वित्तीय विवरण है ? 1
- (A) सामान्य आकार/समरूप लाभ-हानि विवरण
- (B) लाभ-हानि विवरण
- (C) तुलनात्मक तुलन-पत्र/स्थिति विवरण
- (D) तुलनात्मक लाभ-हानि विवरण

**अथवा**

- (ख) निम्नलिखित में से कौन-सा ऋण शोधन-क्षमता अनुपात **नहीं** है ? 1
- (A) ऋण-समता अनुपात
- (B) निवेश पर प्रत्याय
- (C) ब्याज आवरण व्याप्ति अनुपात
- (D) स्वामित्व अनुपात

- 28.** मेघ राज लिमिटेड का चालू अनुपात 1.5 : 1 है। निम्नलिखित में से कौन-सा लेनदेन अनुपात को कम करेगा ? 1
- (A) ₹ 18,000 के फर्नीचर का ₹ 2,000 की हानि पर विक्रय
- (B) ₹ 75,000 के माल का उधार क्रय
- (C) ₹ 60,000 लागत के माल का ₹ 80,000 में विक्रय
- (D) ₹ 40,000 के व्यापारिक देयों का भुगतान

- 29.** (क) रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी 'निवेश गतिविधियाँ' मानी जाएँगी ? 1
- (i) कर भुगतान
- (ii) लाभांश तथा ब्याज का भुगतान
- (iii) ब्याज तथा लाभांश की प्राप्ति
- निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए :
- (A) (i), (ii) तथा (iii)
- (B) (i) तथा (ii)
- (C) (ii) तथा (iii)
- (D) केवल (iii)

**अथवा**



**PART B**  
**Option I**  
**(Analysis of Financial Statements)**

- 27.** (a) Which of the following is a financial statement of a company ? 1
- (A) Common Size Statement of Profit and Loss
- (B) Statement of Profit and Loss
- (C) Comparative Balance Sheet
- (D) Comparative Statement of Profit and Loss

**OR**

- (b) Which of the following is **not** a Solvency Ratio ? 1
- (A) Debt-Equity Ratio
- (B) Return on Investment
- (C) Interest Coverage Ratio
- (D) Proprietary Ratio

- 28.** The Current Ratio of Megh Raj Ltd. is 1.5 : 1. Which of the following transactions will reduce the ratio ? 1
- (A) Sale of furniture of ₹ 18,000 at a loss of ₹ 2,000
- (B) Goods purchased on credit ₹ 75,000
- (C) Sale of goods costing ₹ 60,000 for ₹ 80,000
- (D) Payment of trade payables ₹ 40,000

- 29.** (a) Which of the following are 'investing activities' for preparation of Cash Flow Statement ? 1
- (i) Payment of taxes
- (ii) Payment of dividend and interest
- (iii) Receipt of interest and dividend
- Choose the correct option from the following :
- (A) (i), (ii) and (iii)
- (B) (i) and (ii)
- (C) (ii) and (iii)
- (D) (iii) only

**OR**



- (ख) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?
- (A) सम्पत्ति का विक्रय एक वित्तीय गतिविधि है।
- (B) बैंक में नगद जमा करने का परिणाम रोकड़ का बहिर्वाह होगा।
- (C) रॉयल्टी की प्राप्ति एक प्रचालन गतिविधि है।
- (D) स्वयं के समता अंशों का पुनःक्रय एक निवेश गतिविधि है।

1

**30.** कथन I : प्रचालन गतिविधियाँ वे गतिविधियाँ होती हैं जो एक उद्यम की प्राथमिक या मुख्य गतिविधियों का संघटन करती हैं।

कथन II : वित्तीय उद्यमों द्वारा दिए गए रोकड़ अग्रिम एवं ऋणों को अधिकांशतः प्रचालन गतिविधियों में वर्गीकृत किया जाता है।

1

निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

- (A) दोनों कथन असत्य हैं।
- (B) कथन I सत्य है तथा कथन II असत्य है।
- (C) कथन I असत्य है तथा कथन II सत्य है।
- (D) दोनों कथन सत्य हैं।

**31.** निम्नलिखित मदों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III, भाग-I के अनुसार कम्पनी के स्थिति विवरण के मुख्य शीर्षकों तथा उप-शीर्षकों (यदि कोई है) के अंतर्गत वर्गीकृत कीजिए :

- (i) पूर्वदत्त बीमा
- (ii) प्रतिभूति प्रीमियम
- (iii) डिजाइन

3

**32.** ढोलकिया लिमिटेड की निम्नलिखित सूचना से 31 मार्च, 2024 तथा 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनात्मक लाभ-हानि विवरण तैयार कीजिए :

3

विवरण	नोट सं.	2024 – 25	2023 – 24
प्रचालनों से आगम		₹ 30,00,000	₹ 15,00,000
प्रचालनों से आगम की लागत		प्रचालनों से आगम का 80%	प्रचालनों से आगम का 80%
अन्य व्यय		₹ 2,40,000	₹ 1,20,000
कर दर		50%	50%





- (b) Which of the following statements is correct ? 1
- (A) Sale of property is a financing activity.
- (B) Cash deposited into bank will result in outflow of cash.
- (C) Receipt of royalties is an operating activity.
- (D) Buy-back of own equity shares is an investing activity.

**30.** *Statement I :* Operating activities are the activities that constitute the primary or main activities of an enterprise.

*Statement II :* Cash advances and loans made by financial enterprises are usually classified as operating activities.

Choose the correct option from the following : 1

- (A) Both the Statements are false.
- (B) Statement I is true and Statement II is false.
- (C) Statement I is false and Statement II is true.
- (D) Both the Statements are true.

**31.** Classify the following items under major heads and sub-heads (if any) in the Balance Sheet of a company as per Schedule-III, Part-I of the Companies Act, 2013 :

- (i) Prepaid insurance
- (ii) Securities Premium
- (iii) Design 3

**32.** From the following information of Dholakia Ltd., prepare a Comparative Statement of Profit and Loss for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2024 and 2025 : 3

Particulars	Note No.	2024 – 25	2023 – 24
Revenue from operations		₹ 30,00,000	₹ 15,00,000
Cost of revenue from operations		80% of revenue from operations	80% of revenue from operations
Other Expenses		₹ 2,40,000	₹ 1,20,000
Tax Rate		50%	50%



33. (क) निम्नलिखित सूचना से, 'ब्याज आवरण अनुपात' की गणना कीजिए :

4

अंशधारक निधियाँ	₹ 30,00,000
8% दीर्घकालीन ऋण	₹ 10,00,000
कर पश्चात् शुद्ध लाभ	₹ 2,40,000
कर दर	40%

अथवा

(ख) निम्नलिखित सूचना से, 'इन्वेन्ट्री (स्टॉक) आवर्त अनुपात' की गणना कीजिए :

4

प्रचालनों से आगम	₹ 15,00,000
आरंभिक इन्वेन्ट्री (स्टॉक)	₹ 2,00,000

सकल लाभ प्रचालनों से आगम की लागत का 25% है।

अंतिम इन्वेन्ट्री (स्टॉक) आरंभिक इन्वेन्ट्री (स्टॉक) की 2 गुनी है।

34. स्थायी परिसम्पत्तियों पर ₹ 20,000 का मूल्यहास लगाने तथा सामान्य संचय में ₹ 15,000 स्थानान्तरित करने के पश्चात् जेसी लिमिटेड ने ₹ 50,000 का शुद्ध लाभ अर्जित किया। उसकी चालू परिसम्पत्तियों तथा चालू देयताओं की स्थिति निम्न प्रकार थी :

विवरण	31.03.2025 (₹)	31.03.2024 (₹)
व्यापारिक प्राप्त	75,000	70,000
व्यापारिक देय	75,000	65,000
इन्वेन्ट्री (मालसूची)	40,000	25,000
देय व्यय	7,500	5,000
पूर्वदत्त व्यय	5,000	10,000
उपार्जित आय	20,000	15,000
अग्रिम प्राप्त आय	5,000	10,000

प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए।

6



- 33.** (a) From the following information, calculate 'Interest Coverage Ratio' :

4

Shareholders' funds	₹ 30,00,000
8% Long-term debt	₹ 10,00,000
Net profit after tax	₹ 2,40,000
Tax Rate	40%

**OR**

- (b) From the following information, calculate 'Inventory Turnover Ratio' :

4

Revenue from operations	₹ 15,00,000
Opening inventory	₹ 2,00,000

Gross profit is 25% of cost of revenue from operations.

Closing inventory was 2 times the opening inventory.

- 34.** JC Ltd. earned a net profit of ₹ 50,000 after providing depreciation of ₹ 20,000 on fixed assets and a transfer of ₹ 15,000 to general reserve. The position of its Current Assets and Current Liabilities was as follows :

Particulars	31.03.2025 (₹)	31.03.2024 (₹)
Trade Receivables	75,000	70,000
Trade Payables	75,000	65,000
Inventories	40,000	25,000
Expenses Payable	7,500	5,000
Prepaid Expenses	5,000	10,000
Accrued Incomes	20,000	15,000
Income Received in Advance	5,000	10,000

Calculate cash flows from operating activities.

6



**भाग ख**  
**विकल्प II**  
**(अभिकलित्र लेखांकन)**

- 27.** (क) निम्नलिखित में से कौन-सा 'जेनेरिक' अभिकलित्र लेखांकन सॉफ्टवेयर की विशेषता **नहीं** है ? 1
- (A) बढ़ी हुई डेटा सुरक्षा  
(B) कम लेखांकन प्रचालनों वाले व्यवसाय के लिए उपयुक्त  
(C) न्यूनतम प्रणाली समर्थन की आवश्यकता  
(D) सस्ता

**अथवा**

- (ख) जब हम दो ऐसे क्षेत्रों के प्रतिच्छेदन को निर्दिष्ट करते हैं जो आपस में प्रतिच्छेद **नहीं** करते हैं, तो स्क्रीन पर क्या प्रदर्शित होगा। 1
- (A) Correct a ##### Error  
(B) Correct a #NULL! Error  
(C) Correct a #Name Error  
(D) Correct a #REF! Error
- 28.** कौन-सा वित्तीय कार्य (फंक्शन) भविष्य में होने वाले भुगतानों की श्रृंखला के लिए एकमुश्त राशि की गणना करता है ? 1
- (A) एनपीईआर (NPER)  
(B) एफवी (FV)  
(C) पीवी (PV)  
(D) पीएमटी (PMT)

- 29.** \_\_\_\_\_ डेटा श्रृंखला में डेटा बिंदु के विवरण की पहचान करने के लिए डेटा मार्कर के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। 1
- (A) स्रोत डेटा  
(B) द्वितीयक डेटा  
(C) डेटा  
(D) डेटा लेबल



**PART B**  
**Option II**  
**(Computerised Accounting)**

**27.** (a) Which of the following is **not** a feature of 'Generic' Computerised Accounting Software ? 1

- (A) Increased data security
- (B) Suitable for business with low accounting operations
- (C) Requires minimal system support
- (D) Cheaper

**OR**

(b) Identify what will be displayed on the screen when we specify an intersection of two areas that do **not** intersect. 1

- (A) Correct a ##### Error
- (B) Correct a #NULL! Error
- (C) Correct a #Name Error
- (D) Correct a #REF! Error

**28.** Which financial function calculates the lump-sum amount for series of future payments ? 1

- (A) NPER
- (B) FV
- (C) PV
- (D) PMT

**29.** \_\_\_\_\_ provides additional information about a data marker to identify the details of data point in a data series. 1

- (A) Source data
- (B) Secondary data
- (C) Data series
- (D) Data label



**30.** (क) 'अभिकलित्र लेखांकन तंत्र व्यवसाय के आकार और वृद्धि के अनुसार डेटा प्रोसेसिंग की मात्रा को बदलने में सक्षम बनाता है।' इस कथन में अभिकलित्र लेखांकन तंत्र की उस विशेषता को पहचानिए जिस पर प्रकाश डाला गया है :

1

- (A) विश्वसनीयता
- (B) सोपानीयता
- (C) पारदर्शिता
- (D) सरल और एकीकृत

**अथवा**

(ख) इनपुट डेटा की तुलना कुछ ज्ञात डेटा से करने की प्रक्रिया को \_\_\_\_\_ कहा जाता है।

1

- (A) डेटा सत्यापन
- (B) संग्रहण डेटा
- (C) डेटा प्रविष्टि
- (D) अनावश्यक डेटा

**31.** उदाहरण की सहायता से अनुक्रमिक कोड और ब्लॉक कोड को समझाइए।

3

**32.** ऐसी कौन-सी तीन श्रेणियाँ हैं जिनमें वाउचर में प्रविष्टियाँ दर्ज करते समय लेखांकन प्रविष्टियों को वर्गीकृत किया जा सकता है ?

3

**33.** (क) कम्पनी निर्माण स्क्रीन पर उपयोगकर्ता द्वारा भरी जाने वाली आवश्यक जानकारी की सूची बनाइए।

4

**अथवा**

(ख) एक चार्ट/ग्राफ क्या है ? इसके लाभों को समझाइए।

4

**34.** यदि कोई उपयोगकर्ता चार्ट के किसी अवयव में 'पाठ विकल्प' को बदलना चाहता है, तो उल्लेख कीजिए कि यह कैसे किया जा सकता है।

6



- 30.** (a) 'Computerised Accounting System enables changing the volume of data processing in accordance with the size and growth of the business.' Identify the feature of Computerised Accounting System being highlighted in the statement : 1
- (A) Reliability  
(B) Scalability  
(C) Transparency  
(D) Simple and integrated
- OR**
- (b) The process of comparing input data with some known data is known as : 1
- (A) Data Validation  
(B) Storage data  
(C) Data entry  
(D) Redundant data
- 31.** Explain Sequential codes and Block codes with the help of example. 3
- 32.** What are the three categories in which accounting entries can be classified while entering them in vouchers ? 3
- 33.** (a) List the necessary information to be filled by a user on company creation screen. 4
- OR**
- (b) What is a Chart/Graph ? Explain its advantages. 4
- 34.** A user wishes to change a 'Text Option' as an element of chart. State how can this be done. 6